




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 485]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2002/ज्येष्ठ 3, 1924

No. 485]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2002/JYAISTHA 3, 1924

मंत्रिमंडल सचिवालय

CABINET SECRETARIAT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 23 मई, 2002

New Delhi, the 23rd May, 2002

का.आ. 566(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

S.O. 566(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ इकसठवां संशोधन) नियम, 2002 है।

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and sixty-first Amendment) Rules, 2002

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

(2) They shall come into force at once.

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की, दूसरी अनुसूची में, "रक्षा मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "क. रक्षा विभाग" उपशीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 2 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)", under the subheading "A. DEPARTMENT OF DEFENCE (RAKSHA VIBHAG)", after entry 2, the following entry shall be inserted, namely :—

"2क. रक्षा मंत्रालय का समेकित मुख्यालय जिसके अंतर्गत सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और डिफेंस स्टाफ मुख्यालय है।"

"2A. Integrated Headquarters of the Ministry of Defence comprising of Army Headquarters, Naval Headquarters, Air Headquarters and Defence Staff Headquarters."

के. आर. नारायणन
राष्ट्रपति

K. R. NARAYANAN

President

[फा. सं. 1/22/1/2002-मंत्रि.]

[F. No. 1/22/1/2002-CAB]

एस. शशि कुमार, अवर सचिव

S. SASI KUMAR, Under Secy.

1675 GI/2002

